

असर (ASER) रपिर्त 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एनजीओ 'प्रथम'के द्वारा 16वीं 'शिक्षा की वार्षिक स्थिति रपिर्त **ASER 2021** जारी की गई, जिसमें झारखंड में सरकारी वदियालयों की ओर वदियार्थियों की झुकाव में वृद्धि दिरशायी गई है।

प्रमुख बदि

- रपिर्त के अनुसार, झारखंड के सरकारी वदियालयों में पढ़ने वाले 6-14 वर्ष आयु समूह के बच्चों की संख्या में पछिले वर्ष की तुलना में 6.5 प्रतशित की वृद्धि हुई है।
- 2020 में झारखंड के सरकारी वदियालयों में नामति बच्चों (6-14 वर्ष) की संख्या **72.1%** थी, जो 2021 में बढ़कर **78.6%** हो गई है।
- झारखंड के 57.6 प्रतशित बच्चों को ट्यूशन लेना पड़ता है, जबकि राष्ट्रीय औसत सरिफ 39.2 प्रतशित है।
- वर्ष 2021 में राज्य के वैसे नामांकति वदियार्थी, जिनके घरों में स्मार्टफोन है, की संख्या बढ़कर 60.2 प्रतशित हो गई है, जो वर्ष 2018 में केवल 20.6 प्रतशित थी।
- राज्य के 89.8 प्रतशित नामांकति बच्चों के पास उनके ग्रेड की पुस्तकें उपलब्ध हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 91.9 प्रतशित है।
- राज्य के 6-14 वर्ष आयु समूह के 2.7 प्रतशित बच्चे अभी भी वदियालयों में अनामांकति हैं, जिनमें 3.1 प्रतशित लड़के एवं 2.3 प्रतशित लड़कियाँ शामिल हैं।
- राज्य के केवल 15.3 प्रतशित नामांकति वदियार्थी ही घरों से ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं, जबकि केरल में यह 91 प्रतशित है, वहीं राष्ट्रीय औसत भी झारखंड से काफी अधकि (24.2 प्रतशित) है।
- वदिति हो कयिह रपिर्त द्वारा ग्रामीण भारत के बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति एवं बुनयिदी पढ़ने और गणति की क्षमता पर आँकड़े प्रस्तुत करती है।
- कोवडि-19 महामारी के कारण 'असर (ASER) 2021' रपिर्त एक फोन आधारति सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई है।